

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

02 मई 2019

जामिया ने लंदन आधारित टाइम्स हाइअर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी की साल 2019 की रैंकिंग में और सुधार किया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपनी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में और सुधार किया है। इस बार लंदन आधारित टाइम्स हाइअर एजुकेशन :टीएचई: एशिया युनिवर्सिटी रैंकिंग-2019 में इसने 188 वां स्थान पाया है, जबकि पिछले साल इसे 201-250 के बीच जगह मिली थी। टीएचई 200 के भीतर जगह बनाने वाले विश्वविद्यालयों को विशेष दर्जा देता है।

इस साल टीएचई ने 400 से अधिक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की है। पिछले वर्ष यह संख्या 350 ही थी। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के 27 देशों के विश्वविद्यालय इस रैंकिंग प्रक्रिया में शामिल थे।

टीएचई पांच प्रमुख मानदंडों पर विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करता है। ये हैं: साईटेशन, इंडस्ट्री इन्कम, इंटरनेशनल आउटलुक, रिसर्च और टीचिंग। जामिया को सबसे अधिक अंक शिक्षा, इंडस्ट्री इन्कम, और साईटेशन में मिले हैं।

उल्लेखनीय है कि मास्को आधारित राउंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: आरयूआर: 2019 में 1100 विश्वविद्यालयों में से जामिया को 747 वां स्थान मिला था, जो कि पिछले साल से बेहतर है।

जामिया की रैंकिंग में लगातार हो रहे सुधार पर खुशी जताते हुए इसकी कुलपति प्रो नजमा अख्तर ने कहा, “ यह विश्वविद्यालय के लिए बहुत गौरव और संतोष की बात है। यह अध्यापकों और अन्य स्टाफ की मेहनत को दर्शाता है। उनकी प्रतिबद्धता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा ग्राफ लगातार बेहतर हो रहा है। इस उपलब्धि के लिए मैं अपने साथियों और स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ। आने वाले सालों में जामिया अपनी रैंकिंग में और सुधार के प्रयास करता रहेगा।

**अहमद अज़ीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक